



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1975/आषाढ़ 7, 1897

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1975/ASADHA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 28th, June, 1975

G.S.R. 363 (E)—WHEREAS the Central Government considers it necessary and expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons into certain places ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by rule 8, read with rule 11, of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the places specified in the Schedule hereto annexed to be protected places and directs that no person, who has not been issued with a permanent identity pass, by the Chairman, in the case of Delhi Milk Scheme, New Delhi, or the Officer-on-Special Duty in the case of the New Dairy Plant of the Indian Dairy Corporation at Patparguna, Delhi, shall enter or be in, the protected place concerned without the previous permission, in writing, of the said Chairman, or the Officer-on-Special Duty, as the case may be.

THE SCHEDULE

Name of protected place	Boundaries or other description
(1)	(2)
1. Delhi Milk Scheme, West Patel Nagar, New Delhi.	Area bounded on the South in the front side by the open space opposite the administrative block, on the North by the Delhi Milk Scheme Residential Colony which is at the back of the Delhi Milk Scheme, (fenced area), on the East by the Delhi Transport Corporation Shed, Shadipur, and on the West by the Railway-line.

(1)

(2)

2. New Dairy Plant of the Indian Dairy Corporation at Patparganj, Delhi.

Area bounded on the South by open agricultural land between the boundary wall and the Meerut Road, on the West by the Patparganj Road, on the North by Kondli Road with the Delhi Electric Supply Undertaking Sub-Station on the North East, and on the East by open fields.

[No. 32018/2/75-AVU]

Q. M. AHMAD, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जून, 1975

सा० का० नि० 363(अ).—यह केन्द्रीय सरकार यह जरूरी और कार्यसाधक समझती है कि अनधिकृत व्यक्तियों के कुछ जगहों में प्रवेश को रोकने के लिये विशेष पूर्वोपाय किये जायें ;

अब, अतः भारत रक्षा नियम, 1971, नियम 11 के साथ पठित नियम 8 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत सरकार यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बनायी गयी जगहें सुरक्षित जगहें होंगी और निदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली के मामले में चेयरमैन या भारतीय डेरी निगम की डेरी पटपड़गंज, दिल्ली के मामले में विशेष कार्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी पहचान-पाम न हो, पहले से यथा स्थिति उक्त चेयरमैन या विशेष कार्य अधिकारी से मिली लिखित आज्ञा के बिना संबंधित सुरक्षित जगहों में न प्रवेश करेगा अथवा न वहां विद्यमान रहेगा ।

अनुसूची

संरक्षित जगह का नाम

सीमायें या दूसरा विवरण

(1)

(2)

1. दिल्ली दुग्ध योजना पश्चिम पटेल नगर, नयी दिल्ली ।

दक्षिण में मामले की ओर प्रशासनिक ब्लॉक के आगे की खुली जगह, उत्तर में दिल्ली दुग्ध योजना की निवास बस्ती जो दिल्ली दुग्ध योजना के (बाड़े वाले इलाके) के पीछे है, पूर्व में दिल्ली परिवहन निगम वा शेंड, शादीपुर और पश्चिम में रेलवे लाइन से घिरा हुआ इलाका ।

(1)

(2)

- 2 भारतीय डेरी निगम के अधीन दक्षिण में खली खेती वाली जमीन जो सीमा की डेरी, पटपड़ गंज, दिल्ली । दीवाल और पेट रोड के बीच है, पश्चिम में पटपड़गंज रोड, उत्तर में कोंडली रोड और साथ में उत्तर-पूर्व में दिल्ली बिजली सप्लाई उप-क्रम के सब-स्टेशन और पूर्व में खुले खेतों से घिरा हुआ इलाका ।

[सं० 32018/2/75—ए० बी० यू०]

कार्जी मुस्तार अहमद, गंयुक्त सचिव ।

